

परमात्मा के अवतरण का महापर्व है शिवरात्रि - दादी

पांच दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव मेले का शुभारम्भ, प्रतिदिन सायं 5 से रात्रि 10 बजे तक चलेगा मेला

आबू रोड, 19फरवरी, निसं। ब्रह्माकुमारीज संस्था के सोशल एक्टिविटी ग्रुप द्वारा एकलव्य रेसिडेन्सियल स्कूल के प्रांगण में आयोजित किया शिवरात्रि महोत्सव मेले का शुभारम्भ गया। इस अवसर पर ब्रह्माकुमारीज संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतनमोहिनी ने कहा कि परमात्मा शिव का नाम ही कल्याणकारी है। क्योंकि वे सर्व मनुष्यात्माओं का कल्याण करते हैं। परमात्मा के अवतरण के यादगार का पर्व है महाशिवरात्रि। वे पांच दिवसीय आयोजित शिवरात्रि महोत्सव के उदघाटन अवसर पर बोल रही थी।

उन्होंने कहा कि परमात्मा शिव भोलेनाथ सर्व मनुष्यात्माओं की बुराईयों का सर्वनाश करने वाले हैं। इसलिए अपने जीवन में अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। जब परमात्मा के उपर अपनी बुराईयों को चढ़ाते हैं तो परमात्मा उसके बदले श्रेष्ठ गुण देते हैं। यही परमात्मा का महान कर्तव्य है। इसी महान कर्तव्य के कारण शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है।

कार्यक्रम में आये आबू रोड नगरपालिका चेयरमैन सुरेश सिंदल ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमें आबू रोड के लोगों की सेवा करने अवसर मिला। ब्रह्माकुमारीज संस्थान ने जब जब हमें बुलाया है हम हमेशा इस कार्यक्रम में शरीक होते रहे हैं। ब्रह्माकुमारीज संस्थान ने पूरे विश्व में मानवता का संदेश दिया है। इसलिए आबू रोड का नाम पूरे विश्व में मानचित्र अच्छे कार्यों के लिए प्रकाशित होता रहता है। इस अवसर पर माधव विश्वविद्यालय के उपकुलपति संजीव ने कहा कि आध्यात्मिक शिक्षा का केन्द्र ब्रह्माकुमारीज संस्थान है। जिसमें आने से मानव के असली व्यक्तित्व का विकास होता है। यही विकास मनुष्य को देवता बनाने का महान कार्य करता है।

शिवरात्रि महोत्सव पर बोलते हुए ब्रह्माकुमारीज संस्था के मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा ने कहा कि परमात्मा इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं। इसलिए अपने आप को परमात्मा से जोड़ें एवं जीवन को श्रेष्ठ बनायें। संस्थान की कोषाधिकारी ईशू दादी शांतिवन प्रबन्धक बीके भूपाल, नगरपालिका में नेता प्रतिपक्ष नरगिस ने कहा कि यह संस्था शांति और शक्ति दोनो केन्द्र है। यहाँ आने मात्र से ही शांति और शक्ति का एहसास होने लगता है।

समारोह में राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने परमात्मा शिव के अवतरण तथा उनके दिव्य कर्तव्यों के बारे में बताते हुए कहा कि परमात्मा शिव सभी देवों के भी देव हैं। इस अवसर पर सोशल एक्टिविटी ग्रुप के अध्यक्ष बीके भरत, पार्षद कांतिलाल परिहार, स्कूल के प्राचार्य रमेश जी समेत कई लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये।

19एबीआरओपी, 1, 2, 3, 4 कार्यक्रम का दीप जलाकर उदघाटन करते अतिथि, सभा में उपस्थित लोग,

--

**Madhuban Rosary Mail Service**  
Brahma Kumaris HQ, Media Dept.  
Cell:+91 9414156615 / 9928756615  
Email: [madhubanrosary@bkivv.org](mailto:madhubanrosary@bkivv.org)